


निर्णय

- ✎ Ursula Nafula
- 👥 Vusi Malindi
- 🗣️ Nandani
- 💬 Hindi
- 📊 Level 2







मेरे गांव में बहुत सारी समस्याएँ थीं। हमें नल से पानी लेने के लिए बहुत लंबी कतार लगानी पड़ती थी।



हमे दूसरों के द्वारा दिए गए भोजन का इंतजार करना पड़ता था।




चोरों के कारण हमें अपने घर जल्दी बंद करने पड़ते थे।




बहुत से बच्चों ने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया।




कम उम्र की लड़कियां दूसरे गांव में नौकरानी का काम करती थीं।




कम उम्र के लड़के गांव में घूमते रहते थे जबकि बाकी दूसरो के खेतों में काम करते थे।



जब हवा चलती तो बेकार पड़े कागज़ पेड़ों और बाड़ों से लटक जाते थे।




असावधानी से फेंके गए कांच के टुकड़ों से लोग घायल हो जाते थे।




एक दिने, नल सूख गया और हमारे बर्तन खाली रह गए।



मेरे पिता ने घर घर जाकर लोगों से विनती की कि वो गांव की बैठक में आए।



एक बड़े पेड़ के नीचे लोग इक्कठा हुए और उन्होंने सुना।



मेरे पिता खड़े हुए और कहा “हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा” ।



पेड़ की डाली पर बैठे आठ वर्षीय जुमा चिलाया "मैं सफाई में मदद कर सकता हूँ"।



एक महिला ने कहा "औरतें मेरे साथ मिलकर फसल उगा सकती हैं" ।



एक और आदमी खड़ा हुआ और बोला "आदमियों को कुआं खोदना चाहिए"।



हम ने एक साथ एक स्वर में ज़ोर से कहा “हम अपनी ज़िदगी जरूर बदलेंगे”। उस दिन से हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए साथ काम करते हैं।



Storybooks Outline

global-asp.github.io/storybooks-outline

निर्णय

Written by: Ursula Nafula

Illustrated by: Vusi Malindi

Translated by: Nandani

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by [Storybooks Outline](#) in an effort to provide children's stories in the world's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).